



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 491]  
No. 491]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 1978/ कार्तिक 12, 1900 (शक)  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1978/KARTIKA 12, 1900 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०प्रा० 633(प्र)—सं० ई (सी) ओ, 1977/एएम (75) :—आयात  
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3  
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात  
(नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्न-  
लिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 41 वाँ संशोधन आदेश 1978  
की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में—

(क) भाग “क” की अनुसूची 1 में क्रम संख्या 45 के सामने आने  
वाली निम्नलिखित प्रविष्टि को हटा दिया जायगा :—

“क्विनीन, क्विनीन उत्पाद, और सिनकोना एल्कालॉयड्स  
(क्विनीडाइन सल्फेट को छोड़कर)।

(ख) भाग “ख” की अनुसूची 1 में क्रम सं० 50 के सामने आने वाली  
वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया  
जाएगा :—

“50(i)—क्विनीन और क्विनीडाइन और उसके लक्षण  
निकालने के पश्चात् सिनकोना मिश्रित एल्कालॉ-  
यड्स और सिनकोना लक्षण”

50(ii)—क्विनीडाइन सल्फेट।

50(iii)—क्विनीन और क्विनीन उत्पाद।

3. खूले सामान्य लाइसेंस-3, में क्रम सं० 61 के सामने दिखाई गई  
वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :—

1	2	3	4
61(1)	तमिलनाडु/पश्चिम बंगाल सिनकोना महा- निदेशालय द्वारा यथा प्रमाणित क्विनीन और क्विनीडाइन और उससे लक्ष्यों निकालने के पश्चात् सिनकोना मिश्रित एल्का- लॉयड्स और सिनकोना लक्षण।	बी, 50(i)	जैसा भी मामला हो, तमिल- नाडु/पश्चिम बंगाल सिनकोना महानिदेशालय में प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

1	2	3	4
61(ii)	चिनोडाइन सल्फेट	बि, 50(ii)	मेषज नियंत्रक, (भारत), नई दिल्ली से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

[सं० 39/1/77-ई II]

का०बे० श्रेयात्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES &  
CO-OPERATION**

(Department of Commerce)

**ORDER**

New Delhi, the 3rd November, 1978

**EXPORT TRADE CONTROL**

**S.O. 633 (E).**—No. E(C)O, 1977/AM(75) :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-first Amendment Order, 1978.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(a) In Part 'A', Schedule I, the following entry appearing against S. No. 45 shall be deleted :—

"Quinine, Quinine products and cinchona alkaloids

(except quinidine sulphate)"

(b) In Part 'B', Schedule I, the existing entry appearing against S. No. 50 shall be substituted by the following :—

"50(i)—Cinchona mixed alkaloids and cinchona salts after extraction of quinine and quinidine and salts thereof.

50(ii)—Quinidine Sulphate

50(iii)—Quinine and Quinine Products".

3. In OGL-3, the existing entry appearing against S. No. 61 shall be substituted by the following :—

1	2	3	4
61(i)	Cinchona mixed alkaloids and cinchona salts after extraction of quinine and quinidine and salts thereof, as certified by Dte. of Cinchona of Tamil Nadu/West Bengal.	B.50(i)	Export allowed against the certificate from Dte. of Cinchona of Tamil Nadu/West Bengal as the case may be.
61(ii)	Quinidine Sulphate	B.50(ii)	Export allowed on production of a 'No Objection' certificate from Drugs Controller (India), New Delhi.

[Issued from file No. 39/1/77-EII]

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports &amp; Exports